

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. Initial Public Offer of Equity Shares on the main board of BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), and together with BSE, the "Stock Exchanges") in compliance with Chapter II of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations").

fractal

FRACTAL ANALYTICS LIMITED

(TO BE LISTED ON THE MAIN BOARD OF BSE AND NSE)

Our Company was originally incorporated as "Fractal Communications Limited" at Mumbai, Maharashtra as a public limited company under the provisions of the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated March 28, 2000, issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, at Mumbai ("RoC") and commenced its business pursuant to a certificate of commencement of business dated April 6, 2000. The name of our Company was subsequently changed to Fractal Technologies Limited to align the name with the business of our Company and our Company received a fresh certificate of incorporation from the RoC on March 28, 2001. The name of our Company was subsequently changed to Fractal Analytics Limited to align the name with the business of our Company and our Company received a fresh certificate of incorporation from the RoC on May 7, 2004. Subsequently, our Company was converted to a private limited company, and the name of our Company was changed to Fractal Analytics Private Limited and the Registrar of Companies, Central Processing Centre issued a fresh certificate of incorporation on May 16, 2024. For details of the change in the name and the registered office address of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 350 of the red herring prospectus dated February 2, 2026 ("RHP" or "Red Herring Prospectus") filed with the RoC.

Registered Office: Level 7, Commerce II, International Business Park, Oberoi Garden City, Off W. E. Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063, Maharashtra, India; Tel: +91 22665 05800; Contact Person: Soniya Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: investors@fractal.ai; Website: www.fractal.ai



(Please scan this QR code to view the Red Herring Prospectus)

OUR PROMOTERS: SRIKANTH VELAMAKANNI, PRANAY AGRAWAL, CHETANA KUMAR, NARENDRA KUMAR AGRAWAL AND RUPA KRISHNAN AGRAWAL

INITIAL PUBLIC OFFERING OF (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH ("EQUITY SHARES") OF FRACTAL ANALYTICS LIMITED ("COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹14 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹1 PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹28,339 MILLION, COMPRISING A FRESH ISSUE OF (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH AGGREGATING UP TO ₹10,235 MILLION ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF (ii) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH AGGREGATING UP TO ₹18,104 MILLION ("OFFER FOR SALE"), AND TOGETHER WITH THE FRESH ISSUE, THE "OFFER", COMPRISING (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH AGGREGATING UP TO ₹28,339 MILLION BY SATYA KUMARI REMALA AND RAO VENKATESWARA REMALA AND (ii) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH AGGREGATING UP TO ₹4,500 MILLION BY TPG FET HOLDINGS PTE. LTD., (iii) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH AGGREGATING UP TO ₹295 MILLION BY SATYA KUMARI REMALA AND RAO VENKATESWARA REMALA AND (iv) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH AGGREGATING UP TO ₹4,500 MILLION BY GLM FAMILY TRUST (COLLECTIVELY, THE "SELLING SHAREHOLDERS"), AND SUCH EQUITY SHARES CUMULATIVELY OFFERED BY THE SELLING SHAREHOLDERS, THE "OFFERED SHARES"), THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF (i) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH AGGREGATING UP TO ₹600 MILLION FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (AS DEFINED HEREINAFTER) NOT EXCEEDING 5% OF OUR POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL ("EMPLOYEE RESERVATION PORTION"), THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [x%] AND [y%], RESPECTIVELY, OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

NAME OF THE SELLING SHAREHOLDER		TYPE	DETAILS OF THE OFFER FOR SALE		WEIGHTED AVERAGE COST OF ACQUISITION (IN ₹)
Quinag Bidco Ltd		Other Selling Shareholder	[i] Equity Shares of face value of ₹1 each aggregating up to ₹8,809 million		173
TPG FET Holdings Pte. Ltd.		Other Selling Shareholder	[ii] Equity Shares of face value of ₹1 each aggregating up to ₹4,500 million		642
Satya Kumari Remala and Rao Venkateswara Remala		Other Selling Shareholder	[iii] Equity Shares of face value of ₹1 each aggregating up to ₹295 million		2
GLM Family Trust		Other Selling Shareholder	[iv] Equity Shares of face value of ₹1 each aggregating up to ₹4,500 million		NP**

** On a fully-diluted basis, as certified by Nikunj Raichura & Associates, Chartered Accountants, by way of their certificate dated February 3, 2026.

** The shareholder was allotted equity shares as a gift and subsequently received bonus shares issued by our Company on July 29, 2025. In the absence of any purchase transaction, no weighted average cost of acquisition is attributable to these holdings.

PRICE BAND: ₹857 TO ₹900 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹1 EACH.
THE FLOOR PRICE AND THE CAP PRICE ARE 857 TIMES AND 900 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES, RESPECTIVELY.
BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 16 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH AND IN MULTIPLES OF 16 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH THEREAFTER.
A DISCOUNT OF ₹85 PER EQUITY SHARE IS BEING OFFERED TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION.
THE PRICE TO EARNINGS RATIO (P/E) BASED ON DILUTED EPS FOR FISCAL 2025 FOR THE COMPANY AT THE UPPER END OF THE PRICE BAND IS AS HIGH AS 67.37 AND AT THE LOWER END OF THE PRICE BAND IS 64.15. P/E RATIO OF FIFTY 50 AS OF FEBRUARY 3, 2026 IS 22.35.
WEIGHTED AVERAGE RETURN ON NET WORTH FOR LAST THREE FINANCIAL YEARS IS 7.4%.

The details of the Fresh Issue, Offer for Sale and the post Offer market capitalization of our Company, each at the Floor Price and the Cap Price, are given below:

Particulars	At Floor Price of ₹857		At Cap Price of ₹900	
	Up to No. of Equity Shares of face value of ₹1 each	Up to Amount (₹ in million)	Up to No. of Equity Shares of face value of ₹1 each	Up to Amount (₹ in million)
Fresh Issue	12,019,909	10,235	11,441,751	10,235
Offer for Sale	21,124,854	18,104	20,115,555	18,104
Total Offer Size	33,144,763	28,339	31,557,306	28,339
Post-Offer market capitalization of the Company	172,578,627	147,898	171,998,469	154,799

BID/OFFER PERIOD

BID/OFFER OPENS TODAY

BID/OFFER CLOSES ON : WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2026*

*The LPT mandate and time and date shall be at 5:00 p.m. on Bid/Offer Closing Date.

We are a globally recognized enterprise AI company with a vision to power human decisions in our client's enterprises. (source: Everest Report). We support large global enterprises with data-driven insights and assist them in their decision making through our end-to-end AI solutions which we build by leveraging our technical, domain and functional capabilities developed over our operating history of over 25 years. As of September 30, 2025, our full suite of AI solutions is organized under two segments: Fractal.ai (comprising AI services and AI products primarily hosted on Cogentix, an agentic AI platform designed to help enterprises accelerate their business transformation and decision systems through a pre-built suite of agents, tools, and connectors with inter-operability features) and Fractal Alpha (comprising independent AI businesses, either incubated or acquired, providing subscription or licensable offerings).

The Offer is being made through the book building process in accordance with Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations.
THE EQUITY SHARES OF OUR COMPANY WILL GET LISTED ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES. NSE SHALL BE THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE.
QIB PORTION: NOT LESS THAN 75% OF THE NET OFFER | NON-INSTITUTIONAL PORTION: NOT MORE THAN 15% OF THE NET OFFER | RETAIL PORTION: NOT MORE THAN 10% OF THE NET OFFER
EMPLOYEE RESERVATION PORTION: UP TO [i] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹600 MILLION

IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, POTENTIAL INVESTORS MUST ONLY RELY ON THE INFORMATION INCLUDED IN THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE TERMS OF THE OFFER, INCLUDING THE RISKS INVOLVED AND NOT RELY ON ANY OTHER EXTERNAL SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE OFFER AVAILABLE IN ANY MANNER. IN RELATION TO PRICE BAND, POTENTIAL INVESTORS SHOULD ONLY REFER TO THIS PRICE BAND ADVERTISEMENT FOR THE OFFER AND SHOULD NOT RELY ON ANY MEDIA ARTICLES / REPORTS IN RELATION TO THE VALUATION OF OUR COMPANY AS THESE ARE NOT ENDORSED, PUBLISHED OR CONFIRMED EITHER BY THE COMPANY OR THE BRLMS

In accordance with the recommendation of the Committee of Independent Directors of our Company, pursuant to their resolution dated February 3, 2026, the above provided price band is justified based on quantitative factors/ KPIs disclosed in the "Basis for Offer Price" section on page 220 of the RHP vis-a-vis the weighted average cost of acquisition ("WACA") of primary and secondary transaction(s), as applicable, disclosed in "Basis for Offer Price" section on page 220 of the RHP.

RISK TO INVESTORS

For details refer to section titled "Risk Factors" on page 36 of the RHP

- Cybersecurity and data protection risk:** Security breaches, cyber-attacks, computer viruses, hacking activities and other cybersecurity incidents that affect our systems and the systems of our clients, vendors and third parties whom we rely on for cloud storage and processing of our data, may cause material adverse effects on our business, financial performance and results of operations and may expose us to loss of clients or business, litigation and possible liability.
- Client concentration risk:** Our success depends on our ability to attract, retain and expand relationships with clients, including our focus client base of "Must Win Clients" ("MWC"). In the six months ended September 30, 2025 and 2024, and in Fiscals 2025, 2024 and 2023, substantially all of our revenue from operations came from our Fractal.ai segment. (₹ in million, unless otherwise stated)

	For the six months ended September 30,				Fiscal			
	2025	As a % of revenue from operations in our Fractal.ai segment	Amount	2024	2025	As a % of revenue from operations in our Fractal.ai segment	Amount	2023
Revenue from operations in our Fractal.ai segment	15,184	100.0%	12,741	100.0%	27,037	100.0%	21,615	100.0%
Revenue from our Top 10 clients in our Fractal.ai segment	8,229	54.2%	7,031	55.2%	14,537	53.8%	11,809	54.6%
Revenue from our Top 20 clients in our Fractal.ai segment	10,955	72.2%	9,157	71.9%	18,831	69.6%	15,114	69.9%
MWCs (number)	122	-	120	-	113	-	110	-
Revenue from MWCs in our Fractal.ai segment	12,061	79.6%	10,426	81.8%	21,837	80.8%	19,421	89.8%

- Industry concentration risk:** Our domain expertise spans our focus industries of CPGR, TMT, HLS and BFSI. A downturn or slowdown in any of our targeted industries or the introduction of regulations that restrict companies from third-party spending on AI solutions could result in a decrease in the demand for our AI solutions. (₹ in million, except percentages)

Revenue from operations contribution by industry in our Fractal.ai segment	For the six months ended September 30,				Fiscal			
	2025	2024	2025	2023	2025	2024	2025	2023
Consumer Packaged Goods and Retail	5,692	37.5%	5,076	39.8%	10,615	39.3%	9,038	41.9%
Technology, Media and Telecom	4,134	27.2%	3,730	29.3%	8,087	29.9%	5,867	27.1%
Healthcare and Life sciences	2,581	17.0%	1,728	13.6%	3,745	13.8%	3,013	13.9%
Banking, Financial Services and Insurance	1,856	12.2%	1,435	11.3%	2,980	11.0%	2,325	10.8%
Others ⁽ⁱ⁾	921	6.1%	772	6.0%	1,610	6.0%	1,372	6.3%
Revenue from operations in our Fractal.ai segment	15,184	100.0%	12,741	100.0%	27,037	100.0%	21,615	100.0%

Note:
⁽ⁱ⁾ Others comprises largely energy, travel and industrials.

- Financial related risk:** We had a net loss in Fiscal 2024 and losses before exceptional items and tax expense in Fiscals 2024 and 2023. There is no assurance that we will not incur losses in the future as we expand our operations. (₹ in million)

Particulars	For the six months ended September 30,			Fiscal		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Profit/(Loss) for the period/year	709	729	2,206	(547)	1,944	1,944
Profit/(Loss) before exceptional items and tax expense	1,036	530	2,110	(250)	(2,105)	(2,105)

- Litigation Risk:** Our Company, Subsidiaries, and two of our Directors are involved in certain legal proceedings. Any adverse decision in such proceedings may render us/ them liable to liabilities/penalties and may adversely affect our business, cash flows and reputation.
- Geographical concentration risk:** We conduct our business across multiple geographies through our global subsidiaries. Our global operations subject us to risks inherent to doing business in such geographies. (₹ in million, except percentages)

Revenue from operations contribution by geography	For the six months ended September 30,				Fiscal			
	2025	2024	2025	2023	2025	2024	2025	2023
Americas								
United States of America	10,125	64.9%	8,333	64.1%	18,022	65.2%	13,578	61.9%
Other countries ⁽ⁱ⁾	117	0.8%	187	1.4%	333	1.2%	422	1.9%
Europe ⁽ⁱⁱ⁾	3,270	21.0%	2,252	17.3%	4,841	17.5%	4,303	19.6%
APAC and others								

Revenue from operations contribution by geography	For the six months ended September 30,				Fiscal			
	2025	%	2024	%	2025	%	2024	%
India	1,185	7.6%	1,152	8.9%	2,318	8.4%	1,899	8.6%
Other Countries ⁽ⁱ⁾	893	5.7%	1,083	8.3%	2,140	7.7%	1,761	8.0%
Total	15,590	100%	13,007	100.0%	27,654	100%	21,963	100%

⁽ⁱ⁾ Primarily includes Barbados, Canada, Brazil and Mexico.

⁽ⁱⁱ⁾ Primarily includes United Kingdom, Netherlands, Switzerland, Austria, Ireland, France, Belgium and Germany.

⁽ⁱⁱⁱ⁾ Primarily includes Australia, UAE, Singapore, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, South Africa, Japan, South Korea and Philippines.

- Significant employee benefit expenses and risk of employee attrition:** Our industry is characterized by high demand and intense competition for talent and therefore we cannot assure you that we will be able to attract or retain engineers or other skilled employees. We have expanded our operations in recent years through organic growth and strategic acquisitions, which has resulted in an increase in our headcount and fixed overhead costs. If our human capital is not adequately utilized, our results of operations and profitability will be negatively and adversely impacted. (₹ in million, unless otherwise stated)

Particulars	For the six months ended September 30,				Fiscal			
	2025	2024	2025	2023	2025	2024	2025	2023
Total number of employees as of the end of period/year (Number)	5,722	4,755	5,254	4,639	4,221			
Total number of outsourced manpower (Number)	149	134	154	138	109			
Employee attrition rate (%) ⁽ⁱ⁾	15.7%	16.1%	16.3%	15.8%	23.7%			
Employee benefits expense	11,252	9,717	20,048	17,370	16,085			
Employee benefits expense as % of revenue from operations (%)	72.2%	74.7%	72.5%	79.1%	81.0%			
Employee stock option expense	270	418	798	963	1,587			
Employee stock option expense as % of revenue from operations (%)	1.7%	3.2%	2.9%	4.4%	8.0%			
Outsourced manpower expense	275	285	576	600	598			
Outsourced manpower expense as % of revenue from operations (%)	1.8%	2.2%	2.1%	2.7%	3.0%			

Note:

⁽ⁱ⁾ Employee attrition rate (including our Key Managerial Personnel and members of our Senior Management) is calculated by dividing the total number of employees who have left the company voluntarily in the trailing 12 months immediately prior to the ending date of the reporting period/year divided by the average of the opening and closing headcount of such period/year.


- Foreign exchange risk:** Our clients are located across Americas, Europe and APAC and others, and we receive more than 70% of our revenue from operations each period/year in U.S. dollars, and more than 90% of our revenue each period/year in currencies other than Indian Rupees (including U.S. dollars, pound sterling and euros). Unfavourable exchange rates may have a material adverse effect on our profitability and margins. (₹ in million, except for percentages)

Particulars	For the six months ended September 30,				Fiscal			
	2025	2024	2025	2023	2025	2024	2025	2023
Revenue denominated in currencies other than Indian Rupees	14,477	92.9%	11,898	91.5%	25,411	91.9%	20,116	91.6%

Continued on next page...

India-USA Trade Framework: A Boost for India's Auto Component Competitiveness

*Thank you
Hon'ble Prime Minister and
Hon'ble Commerce & Industry Minister*



The trade framework strengthens India's auto component competitiveness and reinforces the national vision of Atmanirbharta and Viksit Bharat.

Newer opportunities for our industry while strengthening bilateral ties.

- Expanding Market Access
- Boosting Export Growth
- Driving Technology Collaboration
- Enhancing Supply Chain Resilience

Industry Competitiveness | Market Access | Export Growth | Technology Collaboration | Global Integration

ACMA

Driving India's Auto Component Excellence Globally

www.acma.in

एक और आठ मगर 7-8, पेक्षा 34-11, टुम्बेरीर रम, इन्स्टिट्यूट मॉडल टाउन्शिप, मॉडल, तां मॉडल रम 1 पे 34 पे, मगर के अन्तर्गत टाउन्शिप।

[illegible]

कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ सहाय्यक वी. सुरेंद्र नाथ ने की, जबकि समिति के महासचिव राजू कण्डेय ने संयोजन किया। समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह हात्सी ने कहा कि नए लेखकों और सहाय्यकों को मंच देकर प्रोत्साहित किया जाएगा और आगे चार वर्षों में 400 नए लेखकों और सहाय्यकों को समिति में जुड़ना प्रमुख लक्ष्य है। क्या संगठित हो सके समर्थनों के माध्यम से युवाओं की प्रेरणा-प्राप्त को कार्य में लुभाकर कि

fortune
established
authentic
dal
(chickpeas)

fortune
pulses

भारत ने रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर रखा कूटनीतिक संतुलन

NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली



मोर्क्वा के साथ व्यापार करार सहमति आने के बाद से ही एक साल बार-बार उठ रहा है कि क्या भारत रूस से तेल खरीद पर पूरी तरह पराम लय देश? हालांकि राष्ट्रपति पद भी इसे लेकर एक क्षीय से बचाने

क्या बदलेगा?
800cc-1600cc
 हाल में गाली अमेरिकी बाइक्स पर इपोर्ट इयूटी खाने

महले कुल
44% ड्यूटी
 लगती थी

सस्ती होंगी
हार्ल बाइक्स
इयूटी हटेगी

शामिपम मुखली/कीतिका सुनेज, नई दिल्ली:
 भारत-US अंतरिम व्यवार समझौते के तहत 800cc से 1600cc इजान शमाज वाली एल्टा हर बाइसल (CBU) शामिपम बाइको पर लने बने अजल इयूटी हटेगी जाली। E। के अनुसार, अमे डन पर कुल 44% इयूटी लगती है। (40% बेसिक कस्टम इयूटी + 4% सीलसल वेलफेयर सरकाव)। इस फैसले से US में बने हाई-एंड हाल-डविडसन बाइक भारत में सस्ती हो सकती है। जानकारों का कहना है कि इससे भारत के घरेलू टोपीया निर्माण या बाजार हिसकोदारी पर बड़ा असर नही पड़ेगा, क्योंकि देश का बाजार मुख्य रूप से कम शमाज (150-250cc) बाइको पर आधारित है।

भारतीय बाजार की तस्वीर...
2 करोड़ यूनिट
 करीब सालाना टोपीया बाइको खलू रूप से 3 महीने में हाल में 197 CBU बाइको (800-1600cc) बेची

हीरो-हार्ल साझेदारी पर असर?
 ये 800cc से कम है, इसलिए नई घुट के टापर में नही

कीमत रेंज
महार माकेट

₹14.54-₹45.75 लाख
110-250cc बाइक्स

2,500cc
 से ज्यादा टोपील और 3,000cc से ज्यादा पेट्रोल कारों पर इयूटी 60% से घटकर नही

शामिपम डैल (हाल) डुकटी, टायम्स, कलशस्वकी) की सीमित हिसकोदारी

₹2.35-₹2.79 लाख
 हीरो मोटोको, हाल 440cc बाइको का सीलस निर्मल

HD X440 और X440 T गहरत में बनती है
कार सेक्टर में भी राहत

30 साल में
 30% खलू से अजल नही

इलेक्ट्रिक कारों
 सामंती है शामिपम नही

इलेक्ट्रिक कारों
 सामंती है शामिपम नही

हॉल वाइपर

बराबरी बरेली

ଝୁଟା ଟଙ୍ଗା

કેવરને સા અસર હાથે-પદ સીમિત

बाजार वाली मोटरसाइकिलों पर

जानकारों ने कहा कि भारत के घरेलू

भारतीय बाइचर

शर्मिष्ठा मुखर्जी/कीर्ति राणेज, नई दिल्ली।

भारत-US अंतरिम व्यापार समझौते के तहत 800cc

2 कराड़ यूनिट

हटाई जाएगी। EA के अनुसार, अभी इन पर कुल 44%

ह्यूटी लगती है (40% बेसिक कंस्ट्रेंट ह्यूटी + 4% सोशल वेल्फेयर सराफा)। इस पैसाले से US में बनी

हाई-एड हार्ले-डेविडसन बाइक भारत में

सस्ती हो सकती है। जानकारी का यह है कि भारो भारत के खेल रोपिया निर्माण

3,000cc से ज्यादा | 10 साल में | इलेक्ट्रिक कारें

पेट्रोल कारो पर इयूट्रो 60% से घटाकर 50% 30% तक आ जा सकती है। समझौते में शामिल नहीं



इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर रियल एस्टेट को नई रफ्तार

सरकारी जमीन से REIT तक, बजट ने खोले निवेश के नए रास्ते



लोकेश के. भारती
@lokeshk99

बजट 2023 में रियल एस्टेट को नई रफ्तार देना
रियल एस्टेट को नई रफ्तार देना। बजट 2023 में रियल एस्टेट को नई रफ्तार देना। बजट 2023 में रियल एस्टेट को नई रफ्तार देना।

बजट 2023 में रियल एस्टेट को नई रफ्तार देना। बजट 2023 में रियल एस्टेट को नई रफ्तार देना। बजट 2023 में रियल एस्टेट को नई रफ्तार देना।

रियल एस्टेट निवेश के लिए नीतिगत सुधार

बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती देने के लिए अलग नीतिगत सुधार की बात की गई है। इसके तहत सरकारी जमीन से REIT तक, बजट ने खोले निवेश के नए रास्ते।

NRI के लिए भी बहुत कुछ

इस बजट में NRI निवेशकों के लिए रियल एस्टेट में निवेश को सरल बनाने के कदम उठाए गए हैं।

अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा

बजट में City Economic Regions (CERs) जैसे कॉन्सेप्ट को बल दिया है।

बजट से क्या मिला?

रियल एस्टेट को सीधे फायदा नहीं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास प्रभावित है।

RBI का फैसला

REITs को बैंकों से कर्ज, तो निवेशकों को क्या फायदा?



RBI ने नए फैसले के बाद बैंक अब सीधे REITs को कर्ज दे सकेगा। इससे REITs को सरता और स्थिर फंड मिलेगा।

निवेशकों को क्या फायदा होगा?

रियल एस्टेट निवेशकों के लिए इसका बड़ा फायदा है।

FDI में भी बढ़ोतरी की उम्मीद

RBI का यह कदम बजट के अतिरिक्त मोडेट, डेटा गैर और वैश्वीकरण सेक्टर में जलन पैदा करेगा।

भारत सरकार ने पैनअरबियाई के लिए छोले असाइन कर दी है।

इंफ्रास्ट्रक्चर रिकवरी फंड बैंकों के लिए सुरुआत कायम है।

दिखने में छोटा-सा टूल आपकी प्रोडक्टिविटी का साथी बनकर लंबे समय में आय पर भी असर डालता है सही माउस में करें स्मार्ट निवेश, बढ़ाएं अपनी कमाई!

गैजेट गुरु



आकृति राणा

निमेष दुबे

रही मकसद काय की रफ्तार, आसम और प्रोडक्टिविटी लौनी बढ़ा सकता है।

Logitech MX Master 4 Productivity का महारथी

अगर आप प्रोडक्टिविटी में सबसे अच्छा माउस चाहते हैं, तो सच कहें ही कोई ऐसा माउस नहीं है जो Logitech के MX Master 4 को टक्कर दे सके।

ProtoArc Vertical Mouse EM 11 कभी देखा है ऐसा माउस?

ProtoArc का EM 11 परंपरिक माउस से विपरीत अलग दिखता है।

Amkette XS Natural जेब पर हल्का, काम पर भारी

अगर आपको किसी काम करनेवाला माउस की चाहिए और बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं चाहते हों, तो आपको लिए Amkette का XS Natural बहुत ही अच्छा विकल्प है।

अंत में अध्यात्म धन लाभ या पैसुका सहायता से कायदा मिल सकता है।
 हिप्पेस, सेमीकॉन्डक्टर, होटल, मीडिया और जैमस्टोन सेक्टर से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।
 लाभकारी रह सकते हैं। बड़ी फ़ीस सलह से धन लाभ मिल सकता है। बैंकिंग, आईटी, एयरपोर्ट्स और हिप्पेस सेक्टर से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

(लेखिका ऐस्ट्रो-टैरी रीटर, आध्यात्मिक गुरु और लाइफ कोच)

शहरबाद फैलाव। रेत का नगर। शहमी नगर। लाजवादी महल। जहाँगीरपुरी। वसंत कुज। बागीचाबाद। पश्चिम विहार। कोठी नगर। सफरचंदपुरी। पुरखेबाद। महारौली। भागपुरी। रबीत नगर। राजेद नगर। पहाड़गंज। नारायण। नौजपुर। मियावाली। कालकाजी। नंगल राया। सरिता विहार। प्रेत विहार। वसंत विहार।

NBT जन्मदिन मुबारक

एकनाथ शिंदे
9 फरवरी 1964 को जन्मे एकनाथ शिंदे महापौर के पिताजी साहब जी। शिंदे साहब जी ने 1988 में 'The Winner' नाम का पत्रिका शुरू की। शिंदे साहब जी ने 1988 में 'The Winner' नाम का पत्रिका शुरू की। शिंदे साहब जी ने 1988 में 'The Winner' नाम का पत्रिका शुरू की।

राहुल राय
राहुल राय ने 1990 में 'The Winner' नाम का पत्रिका शुरू की। राहुल राय ने 1990 में 'The Winner' नाम का पत्रिका शुरू की। राहुल राय ने 1990 में 'The Winner' नाम का पत्रिका शुरू की।

निकोल फारिया
निकोल फारिया ने 1990 में 'The Winner' नाम का पत्रिका शुरू की। निकोल फारिया ने 1990 में 'The Winner' नाम का पत्रिका शुरू की। निकोल फारिया ने 1990 में 'The Winner' नाम का पत्रिका शुरू की।

सुनील कुमार जाखड़
सुनील कुमार जाखड़ ने 1990 में 'The Winner' नाम का पत्रिका शुरू की। सुनील कुमार जाखड़ ने 1990 में 'The Winner' नाम का पत्रिका शुरू की। सुनील कुमार जाखड़ ने 1990 में 'The Winner' नाम का पत्रिका शुरू की।

नोएडा में निर्माणाधीन बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से गिरे दो मजदूरों की हुई मौत

नोएडा सेक्टर 142 में निर्माणाधीन बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से गिरे दो मजदूरों की हुई मौत। नोएडा सेक्टर 142 में निर्माणाधीन बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से गिरे दो मजदूरों की हुई मौत। नोएडा सेक्टर 142 में निर्माणाधीन बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से गिरे दो मजदूरों की हुई मौत।

दिल्ली : महानगर : महाकवरेज

खुले गड्ढे बन रहे काल, अब NBT पूछेगा सवाल

नालो पर नहीं डले हैं स्लैब, लोग गिरकर हो रहे हैं चोटिल



आज की एक्सप्रेसन में रहने वाले लोग खुले गड्ढे बन रहे हैं। नालों के खुले गड्ढे बन रहे हैं। नालों के खुले गड्ढे बन रहे हैं। नालों के खुले गड्ढे बन रहे हैं।

बदहाल सड़क, रोड पर पानी, लोगों को हो रही परेशानी

बदहाल सड़क, रोड पर पानी, लोगों को हो रही परेशानी। बदहाल सड़क, रोड पर पानी, लोगों को हो रही परेशानी। बदहाल सड़क, रोड पर पानी, लोगों को हो रही परेशानी।

पब्लिक की आवाज NBT करेगा बुलंद

नालों-गड्ढों में गिरना हमारी नियति नहीं है

ऐसी कई घटनाएँ सामने आई हैं, जहाँ लोग खुले नालों में गिर गए, बाइक सबर गड्ढों में फिसल गए। सुराज की तरह कुछ मामलों में जान चली गई, कभी लोग बाल बाल बचे। हर बार कुछ दिनों की खबर बनती है, जब के आदेश होते हैं और फिर सब कुछ वैसा ही रह जात है।

अब नवभारत टाइम्स पूछेगा सीधे जिम्मेदार अफसरों से कि जब तक ये इन गड्ढों और नालों को भरेंगे। या यहाँ पर खुले गड्ढों के इंतजाम करेंगे। नवभारत टाइम्स पूछेगा कर रहे हैं एक अभियान, ताकि इन खामोश जानलेवा जगहों पर रोशनी डाली जा सके।

इस अभियान में आप हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। अगर आपके इलाके में: खुला नाला है, पानी से भरा गड्ढा, रोड टूटी या गड्ढे हैं, हादसे का खतरा है।

उसकी फोटो खींचिए, जगह का नाम/ लोकेशन लिखिए, हमें भेजिए। ऐसे भेजें... हमें ईमेल कर सकते हैं nbtreader@timesofindia.com 9220747220

व्यापार में भरोसे का माहौल देती दिल्ली सरकार

पिछले कई दशकों से दिल्ली की अर्थव्यवस्था की धड़कन हमारे छोटे कारोबारी, फैक्ट्री मालिक और स्टार्टअप उद्यमी बाजार की चुनौतियों से कम और जटिल प्रक्रियाएँ, लाइसेंस से ज्यादा जुड़ा रहे थे। लेकिन पिछले एक साल में यह तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने लाइसेंस-आधारित नियंत्रण से भरोसे-आधारित शासन की ओर निर्णायक कदम बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के विजन को जमीन पर उतारते हुए, दिल्ली अब व्यापारियों के लिए एक नियंत्रक नहीं, बल्कि एक सहायक की भूमिका निभा रही है।

लाइसेंस राज से राहत: दशकों पुरानी बाधाएँ हुई खत्म

एक उद्यमी के लिए सबसे बड़ा बाधा पड़ने का कारण लाइसेंस था। लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे खत्म करने के लिए कई सराफा कदम उठाए हैं। लाइसेंस राज से राहत: दशकों पुरानी बाधाएँ हुई खत्म। लाइसेंस राज से राहत: दशकों पुरानी बाधाएँ हुई खत्म।

IG NAGAR FACTORY OWNERS ASSOCIATION, ROHTAK ROAD, DE

EASE OF DOING BUSINESS WELCOME FUNCTION



सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ₹ 10 करोड़ तक कोलैटरल-फ्री लोन। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ₹ 10 करोड़ तक कोलैटरल-फ्री लोन। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ₹ 10 करोड़ तक कोलैटरल-फ्री लोन।

रफ्तार की नई पहचान: 120 दिन का काम अब मात्र 20 दिन में

व्यापार और उद्योग के लिए समय ही सबसे बड़ी चुनौती है और इसी सभाई को समाप्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने 120 दिन का काम अब मात्र 20 दिन में करने का फैसला किया है। रफ्तार की नई पहचान: 120 दिन का काम अब मात्र 20 दिन में।



इस फैसले से सामान्य और लघु उद्योगों की बचत हुई, अनाधिकार निर्धारण समाप्त हुआ, भ्रष्टाचार की संभावनाएँ घटी, उद्यम शुरू करना आसान हुआ। इस फैसले से सामान्य और लघु उद्योगों की बचत हुई, अनाधिकार निर्धारण समाप्त हुआ, भ्रष्टाचार की संभावनाएँ घटी, उद्यम शुरू करना आसान हुआ।



इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को मिला बढ़ावा

नीति सुबसे के साथ-साथ सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को मिला बढ़ावा। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को मिला बढ़ावा।



ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड: संवाद से समाधान। ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड: संवाद से समाधान। ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड: संवाद से समाधान।

Strengthening India's Global Trade Strategy



The Confederation of Indian Industry (CII) congratulates the Government of India and Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi on the recent Free Trade Agreements that reflect a focused and strategic approach to bolstering India's economic partnerships with major global economies.

These agreements will create unprecedented opportunities for businesses, especially MSMEs, and India's young workforce. By providing preferential access to developed markets, these agreements will enhance the competitiveness of the Indian industry, deepen integration with global value chains, and position India as a reliable and trusted economic partner.

CII supports the Government's emphasis on integrating with the developed world while safeguarding national interests. It remains committed to working with stakeholders to build Aatmanirbhar Bharat and advance the vision of a Viksit Bharat @2047.

Together, let's accelerate India's economic growth.



Confederation of Indian Industry



(जन्म तिथि 7, 16, 25)
कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी और आप जितना अधिक सोच समझ कर निर्णय लेंगे उतना अधिक जीवन में सुखी रहेंगे। इस सप्ताह ईश्वर जी कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि के शुभ संकेत बनते जाएंगे। प्रेम संबंध में आपसी प्रेम सुदृढ़ होत जाएगा एवं लव

● **मूलक ३**
(जन्म तिथि 8, 17, 26)
प्रेम जीवन में आपसी प्रेम सुनुद होता जरूरी है एवं जीवन में सुख सन्धि के संयोग बनने। इस स्तुति आज भी मेहनत अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित करने उसका सफलतात्मक परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। इस सख्त सह संयुक्त कर किए नप निवेश आने को सखत से सखत परिणाम लेकर आये।

● **मूलंक 9**
(जन्म तिथि 9, 18, 27)
कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी और जीवन में नई सम्मान में वृद्धि होगी। इस सप्ताह सुख समृद्धि के संकेत बनते जाएंगे। कुछ नया सीख कर अपने प्रोजेक्ट में अमल करने

ते जीवन में सफल अवश्य रहेंगे। अर्थिक स्थितिजों से समय अनुकूल है एवं धन लाभ की प्रबल स्थितिवां बनेगी। इस सप्ताह लव लाइफ में आपसी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं एवं मन अशांत रहना।



TELEVISION

 big

09:00	बसंत ऋतु
10:00	बादल बरसक
11:00	रंग के राख
11:30	अपनी
12:00	पकथरी अने कथा

13:30	भा.सो.भा.दे.
14:30	इम.पा.प.
15:00	अनसू.दे.स.की.मजबूत.कला.नी.
16:30	पा.स.मौ.सं.सं.दे.स.की.मजबूत.कला.नी.
18:30	रु.स.के.र.स.सं.
21:00	वी.सं.

पुराने मामले का भी ठप पड़ा है काम

के लिए आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। DDA दिल्ली सरकार के नोटिफाइड एजेंसी देर को आगामी यी प्रक्रिया में है।

संविधान सूचना क्र. /साप्ताहिक / 2025-26/ 14 सप्ताह, दिनांक : 03.02.2026

:: निविदा आमंत्रण सूचना ::
(प्रथम आवेदन)

■ NBT गिरोह, नई दिल्ली: सरोजिनी नगर मंडल, पश्चिम बंगाल, भारत।
 संपर्क व्यक्ति: सहायक प्रबंधक, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, भारत।
 ईमेल: nbt@nbt.gov.in

[illegible]

NOTE :-

[: राजस्थान पत्रिका , दैनिक जागरण delhi, नवभारत टाइम्स delhi, अमर उजाला delhi, हिन्दुस्तान delhi, Pioneer hindi delhi, जनसत्ता delhi,]

English NEWSPAPERS

[Times Of India delhi, Indian Express delhi, The Hindu delhi, Financial Express delhi, economic times delhi , the Pioneer english delhi , the tribune delhi] ETC.

We are providing all news paper pdf hindi and English want to read daily newspapers by pdf please msg me on telegram

2. आकाशवाणी (AUDIO)

whatsapp Group ka link pane ke liye
Newspaper_pdf_bot par jaye.

Click here to contact:- https://t.me/Newspaper_pdf_bot

Or type in Search box of Telegram

@Newspaper_pdf_bot And you will find a channel

BACKUP GROUP LINK

<https://t.me/joinchat/5P9EL1JaQoYzNTI1>

Hindi-English News Paper

Website:- onlineftp.in